

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 205]

नई दिल्ली, संस्कार, अप्रैल 17, 1972/चैत्र 28, 1894

No. 205]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 1972/CHAITRA 28, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 17th April 1972

S.O. 294(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) and in partial modification of the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) Order No. S.O. 5(E)/15/IDRA/71, dated the 4th January, 1972, the Central Government hereby appoints Shri S. C. Chowdhury, Special Officer, Refugee Rehabilitation Department, Government of West Bengal, Calcutta, as a member of the body of persons appointed to make investigation into the affairs of Laxminarayan Cotton Mills Ltd., Rishra (West Bengal).

[No. F. 9(38)/Lic.Pol./71.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1972

का० आ० 294(अ).—औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार (औद्योगिक विकास विभाग) मन्त्रालय के आदेश सं० का० आ० 5(ई)/15/आई० डी० आर० ए०/71, दिनांक 4 जनवरी, 1972 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार श्री एस० सी० खोसरी, विशेष अधिकारी, शरणाधीन लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स लि०, रिशरा, व्यापारियों के निकाय के एक सदस्य के रूप में, एनद्वा द्वारा नियुक्त ।

[सं० फा० 9(38)ला०५० 1]

के० ए० एस० अलमगार, मंगूकत मन्त्रि ।